

JAY BHARAT MARUTI LIMITED

Corporate Office : ° Plot No. 9, Institutional Area, Sector 44, Gurgaon-122 003 (Hr.) T : +91 124 4674500, 4674550 F : +91 124 4674599 W : www.jbmgroup.com

JBML/REG 30/PB/2024-25

Asst. Vice President, Listing Deptt., National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot C-1, Block G Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400 051

Date: May 23, 2024

The Secretary, **BSE Limited** 25th Floor Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Mumbai - 400 001

Scrip Code: JAYBARMARU

Scrip Code: 520066

<u>Sub:</u> <u>Submission of e-copies of Newspaper Advertisement regarding completion of dispatch of</u> <u>Postal Ballot Notice through email only.</u>

Dear Sir/ Ma'am,

Pursuant to the provisions of Regulation 30, 47 and other applicable regulations of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed herewith the e-copies of Newspaper Advertisement published in Business Standard (English & Hindi editions) on May 23, 2024, intimating about the completion of dispatch of Postal Ballot Notice electronically to the Members.

The Published E-copies of aforesaid advertisements will also be made available on the website of the Company at <u>www.jbmgroup.com</u>.

You are requested to take the above information on records and oblige.

Thanking you, For **Jay Bharat Maruti Limited**

Ravi Arora Company Secretary & Compliance Officer M. No. A37075

Encl: As stated above

Works :

Plant 1: Plot No. 5, MSIL, Joint Venture Complex, Gurgaon-122 015 (Haryana) T:. +91 124 4887200, F: +91 124 4887300 Our milestones are touchstones Plant II : Village & Post - Mohammadpur Narsinghpur, Sector 36, Gurgaon - 122 001 (Haryana) T: +91 124 4935300, F: +91 124 4935332 Plant III : Plot No. 15-16 & 21-22, Sector 3A, Maruti Supplier Park, IMT Manesar, Gurgaon -122 051 (Haryana) T: +91 999190423, 9899079952 Plant IV : Village & Post - Mohammadpur Narsinghpur, Sector 36, Gurgaon - 122 001 (Haryana) T: +91 124 4935300, F: +91 124 4935332 Regd. Office : 601, Hemkunt Chambers, 89, Nehra Place, New Delhi - 110 019 T : +91 11 26427104-06. F : +91 11 26427100 CIN : L29130DL1987PLC027342 Email Id: ravi.arora@jbmgroup.com



फंनीकन कार्यालय · श्री टॉलर्म फॉट नं 1411 मारश फेर

इंडस्ट्रियल एस्टेट, गुइन्डी, चेन्नई 600 032 शाखा कार्यालय : प्लॉट नं. 156, दूसरी मंजिल, एलेन सॉर्ल SHRIRAM City णोरूम के ऊपर. राठौर नगर, वैशाली, जवपुर-302021, वेबसाइट : www.shriramfinance.in

सांकेतिक कब्जा सुचना

नोट : यह सूचित किया जाता है कि एनसीएलटी, चेन्नई के आदेश के अनुसार 'श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड'' को ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' के साथ समामेलित किया गया है। इसके बाद ''श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लिमिटेड'' का नाम बदलकर ''श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड'' कर दिया गया, जो दिनांक 30-11-2022 के नाम परिवर्तन के अनुसार निगमन प्रमाणपत्र के माध्यम से 30.11.2022 से प्रभावी हो गया।

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (कथित अधिनियम) के प्रावधानों के तहत श्रीरोम फाइनेंस लिमिटेड (एसएफएल) का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (कथित नियम) के नियम 3 के साथ पठित कथित अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों के उपभोग में नीचे तालिका वर्णित कर्जदारों को कथित माँग सचनाओं में उल्लिखित राशि का पनर्भुगतान करने के लिए माँग सूचनाएँ जारी की थीं।

कर्जदारों के राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण एतद्वारा कर्जदारों तथा जनसामान्य को सुचना दी जाती है कि एसएफएल का अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने कथित अधिनियम तथा नियम की धारा 13(4) के तहत नीचे वर्णित बन्धक सम्पत्ति पर 21.05.2024 को **सांकेतिक कब्जा** कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार को तथा जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्ति के साथ कोई संव्यवहार नीचे वर्णित राशि तथा उस पर ब्याज के लिए श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड '२ प्रभार के अध्यधीन होगा।

कर्जदार का नाम एवं पता	मांग सूचना			
ऋण संख्या JAPR1LP2212060001 1. मैसर्स कूली फैशन डॉट कॉम (प्रोप. चंद्र शेखर) (कर्जदार) शमशान घाट के पीछे, सती माता की गली, छीपीवाड़ा, न्यू राम गढ़, गढ़, राजस्थान -302001 2. श्री चन्द्र शेखर पुत्र लक्ष्मण प्रसाद (सह-कर्जदार/गारंटर) 3. श्रीमती जयंती महावर पत्नी चन्द्र शेखर (सह-कर्जदार/गारंटर) सभी का पता: -11/20, पर्वतपुरी, कच्ची बस्ती, कागदीवाड़ा, न्यू रामगढ़ मोड़, जयपुर, त्रिपोलिया बाजार राजस्थान-302002 सांकेतिक कब्जा दिनांक-21-05-2024 एनपीए- 02-नवंबर-2023	मांग सूचना दिनांक- 14-03-2024 रु. 2024320.07/- (रुपये बीस लाख चौबीस हजार तीन सौ बीस और सात पैसे मात्र) फोरक्लोजर राशि तिथि 14 मार्च, 2024 तक तथा भावी ब्याज एवं अन्य प्रभार			
सम्पत्ति का विवरण				
प्लॉट नंबर 90 दक्षिणी भाग, स्कीम नंबर 10, शंकर नगर विस्तार,				
कागदीवाड़ा रोड, जयपुर राजस्थान में स्थित भूमि और भवन का समस्त				
भाग, माप _{.75.00} वर्ग गजू या 62.70 वर्ग				
- प्लॉट नंबर 113-ए, पश्चिम द्वाराः सड़क	30 फोट, उत्तर द्वाराः प्लॉट			
नंबर 90-ए, दक्षिण द्वाराः प्लॉट नंबर 89, प्रतिभव अपिवर्यों को लिपोनिव करने के लिप उपलब्ध प्र				
। पान्धन आपनग का लिपालिन कार्न के लिप सालक्ष म	गरा सामा के मासाध्य में कडीटार का			

प्रतिभूत आस्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है ह.∕-अधिकृत प्राधिकारी स्थान : जयपुर तिथि : 21.05.2024 श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड

जय भारत मारूति लिमिटेड CIN: L29130DL1987PLC027342 पंजी. कार्यालयः 601, हेमकुंट चैम्बर्स, 89, नेहरू प्लेस, JBM® नई दिल्ली – 110019. फोन.: 011-26427104; फैक्स: 011-26427100 ई—मेल: jbml.investor@jbmgroup.com; वेबसाइट: www.jbmgroup.com

सदस्यों को पोस्टल बैलेट की सूचना

एतद्द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि, कंपनीज (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 (''नियमों'), यथा संशोधित, के साथ पठित कंपनीज अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की घारा 108 और 110 तथा अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई है, कार्पोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी सामान्य परिपत्र सं. 09/2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 और समय-समय पर जारी अन्य संगत परिपत्रों (एमसीए परिपत्रों"), सितंबर 2023 और समय-समय पर जारी अन्य सगत परिपत्रो (एमसीए परिपत्रो''), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाए) विनियम, 2015 के विनियम 44 (''सूचीकरण विनियम') इनमें वर्तमान में लागू किसी भी सांविधिक संशोधन (1) अथवा पुन: अधिनियमन सहित, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्री ऑफ इंडिया (''आईसीएसआई'') द्वारा जारी किए गए सामान्य बैठक पर सचिवालयीन मानदंडों ('एसएस-2''), और अन्य लागू कानूनों तथा विनियमों, यदि कोई है, के अनुसरण में, जय भारत मार्फति लिमिटेड (''कंपनी'') के सदस्यों का अनुमोदन इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अर्थात रिमोट ई–वोटिंग सिस्टम (''ई–वोटिंग'') के जरिए पोकटन बैठेन के पान विजय जर पड़ा है। पोस्टल बैलेट से प्राप्त किया जा रहा है |

एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुरूप, कंपनी ने आज अर्थात **बुधवार, 22 मई** 2024 को उन सदस्यों को पोस्टल बैलेट नोटिस साथ में व्याख्यात्मक विवरण का केपि टेक्नोलॉजिज लिमिटेड के जरिए इलेक्ट्रॉनिक डिस्पैच का काम पूरा कर लिया है जिनके ई—मेल पते कंपनी / डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास **शुक्रवार. 17 मई. 2024** ('कट ऑफ तिथि'') तक पंजीकृत हैं। कंपनी ने रिमोट ई—वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से केफिन टेक्नोलॉजिज लिमिटेड (*केफिनटेक') को नियुक्त किया है।

पारित किये जाने हेतु प्रस्तावित संकल्पों पर पोस्टल बैलेट / ई-वोटिंग से मतदान करने नार्था नेपे आ रहे. तथा से सार्वा के लिए के नाम कट-आफ तिथि अर्थात राक्क लिए केवल वही व्यक्ति हकदार होंगे जिनके नाम कट-आफ तिथि अर्थात राक्कवार, 17 मई, 2024 को सदस्यों / लामार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज़ हैं। जो



विजनेस स्टैंडर्ड नई दिल्ली | गुरुवार, 23 मई 2024

गरिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि, ऊपरोक्त कॉरपोरेट/पंजीकृत कार्यालय में स्थित पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड (पूर्ववर्ती मैगमा फिनकॉर्प लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते अघोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे यहां बाद में "कथित अधिनियम" कहा गया है) के अधीन तथा कथित अधिनियम की घारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत निम्नलिखित दिनांकित मांग सचना जारी की थी. जिसमें नीचे जल्लेखित कर्जदारों को कथित सचना क प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अंदर सूचना में उल्लेखित रकम चुकता करने को कहा गया था।

कर्जदारों द्वारा संबंधित रकम चुकता करने में विफल होने के कारण, एतदद्वारा कर्जदारों तथा आम तौर पर जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि कथित अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित प्रतिमूति हित प्रवर्तन नियम 2002 के कथित नियम के नियम 8 के अधीन उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग के तहत अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 21 मई, 2024 को यहां नीचे उल्लेखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष तौर पर कर्जदार तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई सौदा न करें तथा इस संपत्ति से संबंधित कोई भी सौदा संबंधित रकम तथा उस ब्याज की राशि हेतु पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटेड (पूर्ववर्ती मैगमा फिनकॉर्प लिमिटेड के नाम से ज्ञात) के प्रभाष का विषय होगा।

प्रत्याभूत सम्पत्ति को मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओ आकर्षित किया जाता है। कब्जा में ली गई सम्पत्ति का विवरण नीचे उल्लेखित है:

कर्जदारों के नाम	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तारीख	संविधिक मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना में राशि रु.
देव सिंह राधा देवी अर्जुन फाइबर वर्क एंड ट्रेडिंग कं. सविता	मौजा सोतई, बल्लमगढ़, फरीदाबाद में खेवट नं. 21/23, मुस्तिल नं49, किला नं. 19, मुस्तिल नं. 54, किल्ला नं. 9 में 605 वर्ग यार्ड की रिहायसी सम्पत्ति, वाका मौजा सोतई, तहसील बल्लमगढ़ जिला फरीदाबाद-121004 में स्थित 3 मरई के हिस्से का 3/320 हिस्से का 1 कनाल 0 मरई परिमाप की मूमि तथा 14 मरई के हिस्से का 14/320 हिस्से का 4 कनाल 8 मरले परिमाप की भूमि (605 वर्ग यार्ड) का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा तथा चौहही निम्नानुसार: पूर्व: अमरपाल की सम्पत्ति, उत्तर: सम्पत्ति का हिस्सा, पश्चिम: महीपाल सिंह की सम्पत्ति, दक्षिण: 22 फीट सड़क।		08.08.2023	ऋण नं.: HL/0179/H/15/000171 दिनांक 08.08,2023 को मुगतेय रु. 25,80,320/- (रुपये पच्चीस लाख अस्सी हजार तीन सौ बीस मात्र) साथ में वसूली की तारीख से सालाना 16.80% की दर से ब्याज
अधिकृत अधिकारी स्थान : फरीदाबाद पूनावाला फिनकॉर्प लिमिटे तारीख : 23.05.2024 (हस्ताक्षर)			वाला फिनकॉर्प लिमिटेड	

कडजा सूचना (अचल संपत्तियों के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी **एसेट रीकंस्ट्रक्शन कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते आर्सिल–सीबीपीएस–आई– ट्रस्ट (''**आसिंल'')** के ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कोर्य करते हुए वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्त-र जगातल असरहार में प्रत्या सरकर्ष न अपना बमता भ काथ करते हुए ।वत्ताय पारसपात्तया के प्रातभूतिकरण और पुनीनेमीण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (''उक्त अधिनियम'') के तहत और उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (''उक्त नियम'') के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 19.10.2023को एक मांग सूचना जारी कर निम्न अनुसूची में वर्णित उघारकर्ता/ओं और गारंटरों और बंधककर्ताओं को राशि चुकाने आवहान किया था, जिसका विवरण नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित हैं:

उधारकर्ता/गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं) उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रह हैं, एतद् द्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता/ गारंटर(रों)/बंधककर्ता(ओं)और सामान्य रूप से जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरीने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसे/उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति को नीचे उल्लेखित दिनांक पर ''**जो है जहां है और जो है जैसा है आधार''** पर अपने कब्जे में ले लिया है।

उधारकर्ता का नाम और गारंटरों	कुल बकाया और मांग सूचना की दिनांक	कब्जा सूचना		
उधारकर्ता: 1. मैसर्स जीएलपी हेबीटेशन प्राइवेट लिभिटेड, कार्यालय पता: मीर सिंह फ्यूल पॉइंट, मालिबू टॉउन के सामने, सोहना रोड, सेक्टर-48, गुडगांव-122018, <u>इसके अतिरिक्त</u> पता: मकान सं. 500, नया सं. 519/11, 519ए/11, रत्तन गार्डन, गुडरांव-122018, <u>इसके अतिरिक्त पता</u> : दूसरा तल, एसर्सी जी 50-51, ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, गुडगांव-122018 गारंटरों: श्री त्रिभूवन कुमार परनामी, श्री अनिलकुमार परनामी, श्री रमन कुमार परनामी	राशि पर संविदात्मक दर पर मविष्य का ब्याज संग आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रमारों आदि सहित सूचना दिनांक : 19.10.2023 और समाचार पत्र प्रकाशन दिनांक 11.11.2023	सांकेतिक कब्जा 17.05.2024		
संपत्ति का विवरण : आवासीय संपत्ति स्थित और मौजूद मकान धारक सं. 500 नया सं. 519/11 और 519ए/11 स्थित रत्तन गॉर्डन,				
गुड़गांव, हरियाणा–122001 मापक ४४८ वर्ग गज श्री रमन कुमार परनामी द्वारा स्वामित्व का संपूर्ण व सर्वांगीण भागा और सीमांकन निम्न				

संपत्ति का विवरण :-गुडगांव, हरियाणा– प्रकार **– सीमांकन (विलेख अनुसार) : उत्तर :** निजी सड़क, **दक्षिण :** मकान, **पूर्व :** आर.पी. चतुर्वेदी का मकान, **पश्चिम :** विजय आहूजा नकान, इसके बाद ''अचल संपत्ति/यों'' से संदर्भित

<u>उधारकर्ताः</u> १. वी.एस.डेवल्पर्स प्राइवेट लिमिटेड, <u>कार्यालय पताः</u> परनामी टॉवर, एससीओ 50-51, दूसरा तल, कमशियल कॉम्प्लेक्स, सोक्टर- ओल्ड जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, अर्बन प्रस्टेट, गुडगांव–122001, <u>इसके अतिरिक्त पता:</u> 75, द्वांसपोर्ट एस्टेट, गुडगांव–122001, <u>इसके अतिरिक्त पता:</u> 75, द्वांसपोर्ट सेंटर, पंजाबी बाग, नई दिल्ली–110026, <u>गारंटरों</u> ; जी.एल. परनामी मार्केटिंग कंपनी, श्री त्रिभूवन कुमार परनामी, श्री बृजेश कुमार कटारिया, श्रीमती अंजी परनमी,श्री अनिल कुमार परनामी श्री पुनीत घामिजा, श्री अनिल भगत, श्री रमन कुमार परनामी प्रकाशन दिनांक 11.11.2023

क. 11,86,46,551/- (रुपये ग्याराह करोड़ छियासी लाख छियालीस हजार पांच सौ इक्यानबे मात्र) 30.09.2023 तक संग 01.10.2023 से सांकेतिक उपरोक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य का ब्याज करजा संग आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रमारों आदि सहित .05.2024 सूचना दिनांक : 19.10.2023 और समाचार पत्र

संपत्ति का विवरण :-- अचल व्यावसायिक संपत्ति स्थित और मौजूद एससीओ प्लॉट सं. 50–51, कमर्शियल कॉम्पलेक्स सेक्टर--ओल्ड जुडिशियल कॉम्पलेक्स से ज्ञात, अरबन एस्टेट, गुड़गांव हरियाणा मापक 272.75 वर्ग मीटर **मैसर्स वीएस डेवल्पर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा** स्वामित्व का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग और सीमांकन निम्न प्रकार : उत्तर : खुली सड़क (नॉर्थ/वेस्ट), दक्षिण : सड़क (साउथ/वेस्ट), पूर्व : अन्य संपत्ति (साँउथ/वेस्ट) **पश्चिम :** अन्य संपत्ति (नॉर्थ/वेस्ट) उपरोक्त संपत्ति ऋण सुविधाओं के लिए **मैसर्स परनामी गुर्ड्स करियर** प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी बंधक है। इसके बाद ''अचल संपत्ति/यों'' से संदर्भित

उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और सामान्य रूप से जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि ऊपर उल्लेखित अचल संपत्ति आर्सिल क कानूनी कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता या कोई भी व्यक्ति, आर्सिल की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस सूचना की प्राप्ति के बाद अचल संपत्ति को पट्टे पर देना या अन्यथा सौदा करना, बिक्री के माध्यम से अंतरण नहीं करेगा और अचल संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन उपरोक्त राशि के लिए आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि सहित उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज के साथ बकाया राशि के लिए आर्सिल के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ताओं / गारंटरों / बंधकों का ध्यान उपर्युक्त अचल संपत्ति को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

स्थान : गुक्तग्राम दिनांक : 23.05.2024	हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड आर्सिल–सीबीपीएस–आई– ट्रस्ट के ट्रस्टी
प्सेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	CIN-U65999MH2002PLC134884
पंजीकृत कार्यालय : व रूबी, 10वां तल, 29 सेनापती बापट मा	र्ग, दादर (पश्चिम), मुंबई—400028
Markalli फोन: +91 2266581300. www.arcil.co.in, <u>शाखा का पता:</u> 1008, वेस	टएंड माल, जनकपुरी वेस्ट, नई दिल्ली–110058

HCL INFOSYSTEMS LIMITED

CIN: 172200DI 1986PI C023959 Regd. Off.: 806, Siddharth, 96 Nehru Place, New Delhi 110 019. Corp. Off.: A-11, First Floor, Sector -3 Noida, UP 201301. Phone number: +91 120 2520977, 2526518-19 Website: www.hclinfosystems.in; Email ID: cosec@hcl.com

Extract of Statement of Audited Consolidated Financial Results for the guarter and year ended March 31, 2024

SI No. PARTICULARS 1. Total income from operations 2. Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Excepti and/or Extraordinary items) from continuing operat 3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exc and/or Extraordinary items) from continuing operat 4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exc and/or Extraordinary items) from continuing operat 5. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exc and/or Extraordinary items) from discontinued operator 6. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exc and/or Extraordinary items) from discontinued operator 7. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) 8. Total comprehensive income for the period [compri- Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] 9. Paid up equity share capital 10. Reserves (excluding Revaluation Reserve) 11. Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing a discontinued operations) - Basic : Diluted: The summary of Audited standalone financia	ing ((ded	Quarter ended 31-Mar-23 (Audited) (1,457) (566) (565) (565) (556) (556) (556)	Year ended 31-Mar-24 (Audited) 6,199 (2,778) (1,582) (1,588) (1,588) (1,588) (1,588) (1,583) (1,583) (1,583)	Year ended 31-Mar-23 (Audited) 5,480 (5,258) (3,874) (3,879) (3,879) (3,879) (3,889) (3,839) (3,839) (3,839)
No. PARTICULARS 1. Total income from operations 2. Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Excepti and/or Extraordinary items) from continuing operat 3. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exc and/or Extraordinary items) from continuing operat 4. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exc and/or Extraordinary items) from continuing operat 5. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exc and/or Extraordinary items) from discontinued operator 6. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exc and/or Extraordinary items) from discontinued operator 7. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) 8. Total comprehensive income for the period (compri- Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] 9. Paid up equity share capital 10. Reserves (excluding Revaluation Reserve) 11. Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing a discontinued operations) - Basic : Diluted:	31-Mi (Audi onal () ceptional () ptional () ceptional () ptional () rations () ptional () rations () ing () ing () nd ()	ar-24 iited) 1,497 (547) (553) (553) (553) (553) (567) (567) - (5584 -	31-Mar-23 (Audited) 1,606 (1,457) (560) (565) (556) (556)	31-Mar-24 (Audited) 6,199 (2,778) (1,582) (1,588) - - (1,588) (1,588) (1,583) 6,584	31-Mar-23 (Audited) 5,480 (5,258) (3,874) (3,879) (3,879) (3,879) (3,839) (3,839)
Total income from operations Total income from operations Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Excepti and/or Extraordinary items) from continuing operat and/or Extraordinary items) from continuing operat Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exc and/or Extraordinary items) from continuing operat Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exc and/or Extraordinary items) from continuing operat Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exc and/or Extraordinary items) from discontinued operat Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exc and/or Extraordinary items) from discontinued operat Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exc and/or Extraordinary items) from discontinued operating disposal Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) S Total comprehensive income for the period [compri Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] Paid up equity share capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing a discontinued operations) - Basic : Diluted:	(Audi onal 1 onal 1 ons 1 ceptional (ions 1 ceptional (rations 1 ptional (rations (ing (ing (ind (itted) 1,497 (547) (553) - (553) (553) (557) (567) 5,584 -	(Audited) 1,606 (1,457) (560) (555)	(Audited) 6,199 (2,778) (1,582) (1,588) - (1,588) (1,588) (1,583) 6,584	(Audited) 5,480 (5,258) (3,874) (3,879) (3,879) (3,879) (3,839) (3,839)
 Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Excepti and/or Extraordinary items) from continuing operat Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exa and/or Extraordinary items) from continuing operat Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exa and/or Extraordinary items) from continuing operat Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exa and/or Extraordinary items) from continuing operat Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exa and/or Extraordinary items) from discontinued operat Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exce and/or Extraordinary items) from discontinued operincluding disposal Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) Total comprehensive income for the period [compri Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] Paid up equity share capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing a discontinued operations) - Basic : Diluted: Diluted: 	ing (((547) (547) (553) - (553) (553) (567) (567) -	1,606 (1,457) (560) (565) - (565) (556)	6,199 (2,778) (1,582) (1,588) - (1,588) (1,588) (1,583) 6,584	(3,879) (3,879) (3,879) (3,879) (3,879) (3,839) (3,839) (3,839)
 Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Excepti and/or Extraordinary items) from continuing operat Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exa and/or Extraordinary items) from continuing operat Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exa and/or Extraordinary items) from continuing operat Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exa and/or Extraordinary items) from discontinued operat Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exa and/or Extraordinary items) from discontinued operat Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exce and/or Extraordinary items) from discontinued oper including disposal Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) Total comprehensive income for the period [compri Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] Paid up equity share capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing a discontinued operations) - Basic : Diluted: 	onal () ons () peptional () ions () ceptional () rations () ptional () rations () () ing () ing () ing ()	(547) (547) (553) – (553) (553) (567) (567) 5,584 –	(1,457) (560) (565) - (565) (556)	(2,778) (1,582) (1,588) - (1,588) (1,588) (1,583) 6,584	(5,258) (3,874) (3,879) (3,879) (3,879) (3,839) 6,584
 and/or Extraordinary items) from continuing operat Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exa and/or Extraordinary items) from continuing operat Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exa and/or Extraordinary items) from continuing operat Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exa and/or Extraordinary items) from discontinued operat Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exa and/or Extraordinary items) from discontinued operat Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exa and/or Extraordinary items) from discontinued operatincluding disposal Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) Total comprehensive income for the period (comprimers) Total comprehensive income (after tax) and other comprehensive income (after tax)] Paid up equity share capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing a discontinued operations) - Basic : Diluted: 	ons ceptional ptional ceptional rations ptional rations, () () () () () () () () () ()	(553) - (553) (553) (553) (567) 5,584 -	(560) (565) - (565) (556)	(1,582) (1,588) - (1,588) (1,588) (1,583) 6,584	(3,874) (3,879) (3,879) (3,879) (3,839) 6,584
 and/or Extraordinary items) from continuing operat Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exc and/or Extraordinary items) from continuing operat Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exc and/or Extraordinary items) from discontinued operation Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exc and/or Extraordinary items) from discontinued operation Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exc and/or Extraordinary items) from discontinued operation Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) Total comprehensive income for the period (compri Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] Paid up equity share capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing a discontinued operations) - Basic : Diluted: 	ons ptional ceptional rations (ins ceptional rations ptional rations, ceptional rations, ceptional rations, ceptional ceptional ceptional ceptional ceptional ceptional ceptional ceptional ception ce	(553) - (553) (557) (567) 5,584 -	(565)	(1,588) - (1,588) (1,583) 6,584	(3,879) (3,879) (3,839) (3,839)
 and/or Extraordinary items) from continuing opera 5. Net Profit / (Loss) for the period before tax (after exa and/or Extraordinary items) from discontinued opera 6. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exa and/or Extraordinary items) from discontinued opera 7. Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) 8. Total comprehensive income for the period (compring Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] 9. Paid up equity share capital 10. Reserves (excluding Revaluation Reserve) 11. Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing a discontinued operations) - Basic : Diluted: 	ions ceptional rations ptional rations, (ing (nd ((- (553) (567) 6,584 -	(565)	(1,588) (1,583) 6,584	(3,879) (3,839) 6,584
 and/or Extraordinary items) from discontinued ope Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exce and/or Extraordinary items) from discontinued ope including disposal Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) Total comprehensive income for the period [compri Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] Paid up equity share capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing a discontinued operations) - Basic : Diluted: 	rations ptional rations, ing (ing (nd ((- (553) (567) 5,584 -	(556)	(1,583) 6,584	(3,839) 6,584
 and/or Extraordinary items) from discontinued operincluding disposal Net Profit / (Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items) Total comprehensive income for the period [compri Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] Paid up equity share capital Reserves (excluding Revaluation Reserve) Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing a discontinued operations) - Basic : Diluted: 	rations, ing (6 6	(553) (567) 5,584 –	(556)	(1,583) 6,584	(3,839) 6,584
(after exceptional and/or Extraordinary items) 8. Total comprehensive income for the period [compri Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] 9. Paid up equity share capital 10. Reserves (excluding Revaluation Reserve) 11. Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing a discontinued operations) - Basic : Diluted:	ing ((567) 5,584 –	(556)	(1,583) 6,584	(3,839) 6,584
Profit / (Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)] 9. Paid up equity share capital 10. Reserves (excluding Revaluation Reserve) 11. Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing a discontinued operations) - Basic : Diluted:	nd ((6,584 —		6,584	6,584
10. Reserves (excluding Revaluation Reserve) 11. Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing a discontinued operations) - Basic : Diluted:	nd ((-	6,584 –		
 Earnings Per Share (of Rs. 2/- each) (for continuing a discontinued operations) - Basic : Diluted: 	((-	_	(33,516)	(31,934)
discontinued operations) - Basic : Diluted:	((0.17)			
Diluted:	·	0.17)			
	((,	(0.17)	(0.48)	(1.18)
The summary of Audited standalone financia		0.17)	(0.17)	(0.48)	(1.18)
	results for t	the re	levant per	iods are as	follows
					Rs. in Lakh
PARTICULARS		rter led	Quarter ended	Year ended	Year ended
		ar-24	31-Mar-23	31-Mar-24	31-Mar-23
	(Audi	ited)	(Audited)	(Audited)	(Audited)
otal income from operations		665	495	1,784	1,975
Net Profit/(Loss) for the period before tax and exceptional items		3	(296)	(1,247)	(2,329)
Net Profit/(Loss) for the period before tax and after exceptional items		(535)	(558)	(1,555)	(3,837)
Profit/(Loss) after tax and after exceptional items	((535)	(558)	(1,555)	(3,837)
otal comprehensive income for the period [comprising Prof or the period (after tax) and other comprehensive income ((535)	(556)	(1,555)	(3,835)
Net Profit/(Loss) for the period before tax and after exceptio Profit/(Loss) after tax and after exceptional items Total comprehensive income for the period [comprising Prof	al items (nal items (t/(Loss) (665 3 (535) (535)	495 (296) (558) (558)	1,784 (1,247) (1,555) (1,555)	1,97 (2,32 (3,83 (3,83

Place : Noida Date : May 22, 2024

Nikhil Sinha Chairpe HCL **HCL INFOSYSTEMS**

कब्जा सूचना

DCB BANK

जबकि, डीसीबी बैंक लिमिटेड के अधोहरताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आरितयों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर अधोल्लिखित तारीख को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें कर्जवारों (कर्जवार और सह—कर्जवार) से नीचे तालिका में वर्णित नोटिस में उल्लिखित राशि को इस पर आगे की ब्याज सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के अन्दर अदा करने के लिए कहा गया।

कर्जवार और सह–कर्जवार द्वारा राशि अवा न कर पाने पर कर्जवार, सह–कर्जवार और सर्व सामान्य को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित नियमावली, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर नीचे वर्णित संपत्ति का 20**-मई-2024, 20-मई-2024, 20-मई-2024, 20-मई-2024, 21-मई-2024, 21-मई-2024, 21-मई-2024** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार, सह–कर्जदार तथा सर्व साधारण को सामान्य रूप में संपत्ति (अचल संपत्ति का विवरण) से कोई भी लेन–देन न करने के लिए आगाह किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन नीचे उल्लिखित संबंधित राशि के लिए डीसीबी बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा पंबंध में मक्त कराने के लिए अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों में कर्जदार का ध्य

व्यक्ति कट-ऑफ तिथि को सदस्य नहीं है उसे इस सूचना को केवल सूचनात्मक			प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को उपलब्ध समय के र
उद्दूश्य के लिए मान लेना चाहिए।	कार्यालय तसली अधिकारी_पश्चम नोटिस न्यायालय सूचना पदा	23.04.2024	आकृष्ट किया जाता है।
जिन सदस्यों को पोस्टल बैलेट का नोटिस प्राप्त नहीं हुआ है, वे इसे कंपनी की वेबसाइट www.jbmgroup.com, केफिनटैक ई–वोटिंग वेबसाइट https://evoting.kfintech.com	(बॅंक दारा)	20.04.2024	मांग नोटिस दिनांकित
और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाइट www.bseindia.com या नेशनल स्टॉक	ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा-।।, किसान भवन के सामने, नाटस मौके पर (बैंक द्वारा)	03.05.2024	कर्जदार(ओं) और सह—कर्जदार (ओं) के नाम
एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइट www.nseindia.com से	लाल कोठी, शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड़, जयपुर (राजस्थान) नाटिस आक पर (बक द्वारा) (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)		कुल बकाया राशि
डाउनलोड कर सकते हैं अथवा jbml.investor@jbmgroup.com पर कंपनी को लिखें।	फार्म संख्या 13 निरीक्षण की तिथि	29.05.2024	अचल संपत्ति का विवरण
निदेशक मंडल ने सुश्री सुनीता माथुर (FCS-1743) कार्यरत कंपनी सचिव, को पोस्टल	(आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)		
बैलेट और ई—वोटिंग प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए	वसुली प्रमाण पत्र संख्या : 605/2022 आगामी तिथि : 18.06.2024 अमानत राशि एवं रजिस्ट्रेशन	04.06.2024	
स्क्रूटनाइजर के तौर पर नियुक्त किया है। अतः समी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः	प्रकरण का उनवान : की अंतिम तिथि		मांग नोटिस दिनांकित
क) पोस्टल बैलेट के नोटिस के डिस्पैच /भेजने का काम पूरा करने की तिथि बुधवार ,	STATE BANK OF INDIA बनाम SH. ANIL KUMAR ्र क्रिंग्लान	10.06.2024	कर्जदार(ऑ) और सह—कर्जदार (ऑ) के नाम
क) पारटल बलट के नाटिस के डिस्पेयें नजन की कान पूरी करने की लिथ बुवेधार. 22 मई, 2024 है।	विक्रय की उदघोषणा		कुल बकाया राशि
ख)ई–वोटिंग अवधि शुक्रवार, 24 मई, 2024 को प्रातः 09.00 बजे (आईएसटी)	यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसली अधिकरण, जयपुर के द्वारा एक वसली प्रमाण पत्र संख्या 605/2022 जो कि मुल आवेदन	संख्या ५१८/२०२१ में	अचल संपत्ति का विवरण
आरंभ होगी और शनिवार, 22 जून, 2024 को अपराहन 05.00 बजे	दिनांक 10.08.2022 को सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध रूपये क्रमंश: 35,22,099/- की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के अनुस खर्ची सहित वसूल किये जाने योग्य है।	र ब्याज, वाद व्यय एवं	अचल सपात्त का विवरण
(आईएसटी) समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान कंपनी के सदस्य, जो कट ऑफ	तथा यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 16.01.2023 तक ब्याज. वाद व्यय व खर्चो सहित कल राशि 40.45.474 /- रूपये एवं भविष्य का ब्याज ब	जया होत्ते है ।	मांग नोटिस दिनांकित
तिथि अर्थात शुक्रवार, 17 मई, 2024 को भौतिक अथवा डिमैटीरियलाइज्ड रूप में	तथा यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा संलग्न अनुसूचि में वर्णित बन्धकशुदा सम्पत्ति को प्रमाण पत्र की सन्तुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित	किया गया है ।	कर्जदार(ऑ) और सह–कर्जदार (ओं) के नाम
शेयर धारण कर रहे हैं वे अपना वोट इलेक्ट्रॉनिकी दे सकते हैं। इसके बाद केफिन जगरियेत हूँ जोरिंग मॅन्सज वन किंग जायेगा।	एतद्वारा यह सुचित किया जाता है कि किसी स्थर्गन आदेश की अनुपस्थिति में सन्दर्भित सम्पत्ति का विक्रय मैसर्से सी 1 इण्डिया प्राईवेंट लिमिटे नीलामी के जरिये <u>www.bankeauctions.com</u> के माध्यम से दिनांक 10.08.2024 को प्रातः 11 बजे से सांय3 बजे तक किया जायेगा।	- क द्वारा आनलाञ्चन	कुल बकाया राशि
द्वरा रिमोट ई—वोटिंग मॉडयूल हटा दिया जायेगा। ग) रिमोट ई—वोटिंग के जरिए सदस्यों के मताधिकार की गणना शुक्रवार, 17 मई,	यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की संपत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूचि में दिया गया है, का किया जावेगा एवं उक्त सम्पत्ति पर दायित्व एवं दावे जो	अभिनिष्टचित्त किये गये	
2024 (कट ऑफ तिथि) की तिथि को कामकाजी घण्टों तक कंपनी की प्रदत्त	हैं, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसुचित में विनिर्विष्ट है। संपत्ति का विक्रय ''जहाँ है जैसी रियति में है'' के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में विये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा।	गदि सम्पत्ति के किसी	अचल संपत्ति का विवरण
इक्विटी शेयर पूंजी में उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के समानुपात के आधार पर	एक भाग के विक्रय से वसूली राशि सन्तुष्ट हो जाती है तो शेष सम्पत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्र	म्भ करने से पूर्व उक्त	
की जायेगी।	प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी संतु प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्चे सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जावेगा। विक्रय हेतु	ष्ट के लिए यह प्रमाण जनसाधारण को स्टम	
ध) यदि ई—मेल पता कंपनी⁄कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर	अर्थवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिये बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है । किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय के संबंध में प्रत्य	न्न एवं अप्रत्यक्ष रूप से	मांग नोटिस दिनांकित
एजेंट / डिपाजिटर्स के पास पंजीकृत नहीं है, कृपया ई–मेल पते के पंजीकरण तथा ई–वोटिंग के लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने के लिए नीचे दी गई	अपना कर्त्तव्य निर्वहन कर रहा है, के द्वारा किसी भी रूप में इस सम्पत्ति के विक्रय में बोली में अथवा सम्पत्ति के अर्जन अथवा अर्जन के प्रयास में भ विक्रय आयकर अधिनियम, 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तों तथा इसके अंतर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्यर्थ		कर्जदार(ओं) और सह—कर्जदार (ओं) के नाम कूल बकाया राशि
इ—योटिंग के लिए लोगने आइंडा और पासपंड प्रार्थ करने के लिए नाव दा गई प्रक्रिया का पालन करें—	(1) सलंग्न सूची में दिये गये विवरण अधोहस्ताक्ष रकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता उदघोषण में किस		कुल बकाया सांश
. भौतिक पद्धति में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपना ई–मेल	चूक के लिए केंतई उत्तरदायी नहीं होगा। (2) सम्पत्ति का आरक्षित मुल्य 44.00 लाख जिससे कम मुल्य में सम्पत्तियों का विक्रय नहीं किया जावेगा।(4) सम्पत्ति की बोली सम्पत्ति रू. 20		अचल संपत्ति का विवरण
पता पर रजिस्ट्रॉर और शेयर ट्रांसफर एजेंट (आरटीए), एमसीएस शेयर ट्रांसफर	(2) सम्यत का आराक्त मूल्य में 500 लोखा जिसर कम मूल्य में सियाद उत्पन होने पर वह लॉट तुरन ही पुनः नीलामी के लिए रख दिया	वायेगा। (5) डच्छक	
एजेंट लिमि. को helpdeskdelhi@mcsregistrars.com पर लिखकर	बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित वेबसाईट पर पंजीकृत कराना तथा पहचान चिन्ह व पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक होगा जो कि सेवा प्रदाता द्वारा उ	लब्ध कराया जायेगा।	
रजिस्टर / अद्यतन करें ।	जो बोली लगाये जाने के लिए अनिवाये है। (6) बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि वसुली अधिकारी,ऋण वसुली अधिकरण, जप डाफ्ट के जरिये जमा करवायी जा सकेगी अथवा ए <u>च.डी.एफ.सी. बैंक लि., सोडाला, जयपर, राजस्थान</u> IFSC No. HDFC0001843 में	पुर के पक्ष में डिमाण्ड गंधारित खाता संख्या	
ii. जिन सदस्यों के पास डिनैटीरियलाइज्ड रूप में शेयर हैं उनसे अनुरोध है कि वे अपने ई—मेल पते संबंधित डिपाजिटरी पार्टिसिपेंट के पास रजिस्टर/अद्यतन करें।	50200074019804 में जमा करवाया जा सकेगा। अमानत राशि जमा कराबे जाने का प्रमाण, पेनकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपी, पते का प्रमाण तथ	ा प्राधिकार पत्र (यदि	
ई—मेल पत्ते के सफल पंजीकरण के बाद, इस नोटिस की प्रति साथ में ई—वोटिंग	वे किसी अन्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में भाग ले रहे हैं) प्रस्तुत करने होंगे, जो कि सेवा प्रदाता की ई-मेल आई.डी. <u>guj</u> support@bankacuctions.com पर भी भेज सकते हैं।(7)किसी भी लॉट के लिए सर्वोच्च बोलीदाता को क्रेता घोषित कर दिया जावेगा बशते	at@c1india.com &	मांग नोटिस दिनांकित
यूजर आईडी और पासवर्ड सदस्यों से अनुरोध प्राप्त होने पर पंजीकृत ई—मेल पते पर	<u>supportuguantacucuons.com</u> ५८ भा भेज सकते हु १८७७) कसा भा लाट का लिए सवाच्य बालादाता का क्रता था।वत करा दया जावगा बराता लिए कानुनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित मुल्य से कम नहीं है । उच्चतम बोली को स्वीकार या अखीकार करने का अधिकार		कर्जदार(ओं) और सह–कर्जदार (ओं) के नाम
भेज दिया जायेगा । किसी भी पूछताछ के लिए सदस्य jbml.investor@jbmgroup.com	विवकाधीन होगा, यदि प्रस्तावित मुल्य स्पष्टतः इतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो ।(8) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को अ	ायकर अधिनियम की	कुल बकाया राशि
को लिख सकते हैं।	द्वितीय अनुसुचिक प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्वगित करने का अधिकार प्राप्त होगाँ। (9) अचल सम्पत्ति के मामले में सम्पत्ति का क्रोता घोषित के द्वारा घोषणा के तुरन्त पश्चात् (विशेष परिस्थितियों में 24 घण्टे में) क्रय मूल्य की 25 प्रतिशत राशि धरोहर राशि को समायोजित करते हुए जग		अचल संपत्ति का विवरण
ड़) ई—वोटिंग के संबंध में किसी भी प्रश्न के मामले में, आप https://evoling.kfintech.com के डाउनलोड खण्ड पर उपलब्ध सदस्यों के लिए बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्न	बैंक के उक्त खाता संख्या 50200074019804 में जमा करवाबी जायेगी अथवा विक्रय की सम्पूर्ण राशि क्रेता द्वारा वसूली अधिकारी ऋण वसूल	अधिकरण के पक्ष में	अचल संपात्त का विवरण
(एफएक्यूज) और सदस्यों के लिए ई–वोटिंग यूजर मैन्युअल का संदर्भ ले सकते हैं	जरिये डिमाण्ड झाफ्ट अथवा खाता संख्या 50200074019804 में नीलामी की तिथि से 15 वें दिवस तक जमा करनी होगी जिसमें वह दिन शामिल	नहीं होगा । यदि 15वां	
अथवा आगे किसी भी स्पष्टीकरण के लिए e-voting@kfintech.com पर अथवा 1800	दिन रविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात् प्रथम कार्यालय दिवस को ऐसा किया जा सकेगा। उक्त अवधि के भीतर भुगतान में व्यक्तिक्रम विक्रय नवीन उद्घोषणा जारी करके कर दिया जावेगा। (10) ऐसी स्थिति में जमाशदा राशि को यदि अघोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उजित समझा ज		
3094001 (टोल फ्री) संपर्क करें।	समायोजित करने के पश्चात् जब्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस स्थिति में क्रेता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में अधिकार	ब्त हो जायेगें।सफल	
च) ई—वोटिंग सहित पोस्टल बैलेट के संबंध में किसी भी शिकायत के लिए सदस्य	बोलीदाता को प्रथम 1000/- रूपये पर 2 प्रतिशत एवं उसके पश्चात् शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पोठण्डेय फीसका भुगतान करना होगा । (११) प्राणणान्मधनी हैंक के नाम स्वरूप होनीतान को समय कि के प्रियेशन की अनुपति ही प्रायंगी विवसके किए स्वरूप होनीतान की आगोक क	पान सामा के फोबार्न न	
निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:– श्री रवि अरोडा	(11) प्रमाणपत्रधारी बैंक के द्वारा इच्छुक बोलीदाता को सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुभति दी जावेगी जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता की अशोक क संख्या 8003894791 पर सम्पर्क कर सकते हैं। (12) यदि इच्छुक बोलीदाता इन्टरनेट के जरिये बोली न लगा सकते है तो वे नोडल अधिकारी/स	गार गुऱ्या स भाषाञ्चल प्राप्नदाता के माध्यम से	मांग नोटिस दिनांकित कर्जदार(ओ) और सह–कर्जदार (ओ) के नाम
श्री रवि अराड़ा कंपनी सचिव	नीलामी में भाग ले सकते है। (13) प्रस्तावित बोलीदाता मैससं सी 1 इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय तीसरा तल, प्लॉट नं. 68,	सेक्टर-44, गुडगांव,	कजदार(आ) आर सह-कजदार (आ) क नान कल बकाया राशि
जय भारत मारूति लिमिटेड	हरियाणा-122003 सम्पर्क मोबाईल नम्बर भाविक पाण्डेय 886682937/7291891124/25/28 के ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाम उठा रू www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है। (14) अमानत राशि जमा कराये जाने एवं रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि 04.06.2024 को 3	0 बजे सांय तक है।	
फोन: 0124-4674500 ई—मेल आईडी: jbml.investor@jbmgroup.com	(15) ऑनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता मैसर्स सी 1 इण्डिया प्राईवेट लिभिटेड पंजीकृत कार्यालय तीसरा तल, प्लॉट नं. 68, सेक्टर-44, गुडगांव, हरि	याणा-122003 सम्पर्क	अचल संपत्ति का विवरण
पोस्टल बैलेट का परिणाम रिमोट ई—वोटिंग संपन्न होने की तिथि से दो कार्य दिवसों के	मोबाईल नम्बर भाविक पाण्डेय 8866682937/7291891124/25/26 के द्वारा दिनांक 10.06.2024 को प्रातः 11 बजे से साय 3 बज तक सम्पा नीलामी की राशि सांय 3 बजे के उपरान्त 10 मिनट के पश्चात् भी नहीं बढ़ायी जाती है तो नीलामी को समाप्त कर दिया जायेगा। (16) धरोहर राशि	वत्त का जावगा । यदि का भुगतान असफल	
भीतर घोषित कर दिया जायेगा। घोषित परिणाम साथ में स्कूटनाइजर की	बोलीदाताओं को उसी दिन सेवा प्रदाता के द्वारा किया जायेगा। सम्पति का विवरण :		
रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.jbmgroup.com पर और केफिनटैक वेबसाइट	लॉट सम्पत्ति के मालिक एवं अन्य सहमालिक का नाम सम्पत्ति का समेकित सम्पत्ति या उसके किसी भी प्रकार विवाद अ	गए कोई है जो कि	
https:/evoting.kfintech.com पर उपलब्ध होगी। ये परिणाम कंपनी द्वारा एनएसई और नीपपूर्व को भी भगेलिन किसे जगरेंगे जनूर के सेपण प्रजीवन हैं।	की सहित बेची जाने वाली सम्पति का विवरण आरक्षित आरक्षित किसी भाग पर के भार का विवरण सम्पति के	संबंध में आगे आया अन्य कोई ज्ञात	मांग नोटिस दिनांकित
बीएसई को भी अग्रेषित किये जायेंगे जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। सेबी ने कंपनी∕आरटीए को भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सभी सदस्यों से पैन	से सह-मालिक है। (लाखों में) मुल्यांक न सम्पत्ति विशिष्टिय	जो कि इसके मूल्य	कर्जदार(ओ) और सह–कर्जदार (ओ) के नाम
कार्ड की प्रति, केवाईसी विवरण, बैंक खाता विवरण, नामांकन फामें आदि प्राप्त करने का	किया गया है। उत्तरदायी है। एवं प्रकृ	ो प्रभाव रखता है।	कुल बकाया राशि
अधिदेश दिया है। अनः भौतिक ऊप में शेयर धारण करने ताले सदस्यों से अनरोध है कि	(1) (2) (3) (4) (5) (6)	(7)	
वे शीघ्रातिशीघ्र पैन, केवाईसी और अन्य विवरण, साथ में निर्धारित् दस्तावेज / ब्यौरे	Agriculture Land of Khata No. 86/54, 44.00 ज्ञात नहीं ज्ञात नहीं Pather No. 70/192, Sq. No. 42, Killa No. 4 to	झात नहीं	अचल संपत्ति का विवरण
जाने परिवार्थ कि जात जानि के प्रेने के प्रेने से प्रेने के प्रेने के प्राप्त कि प्रेने के जाते के जिस्ते के प् उपलब्ध करा दें। इसके अतिरिक्त, डिमैटीरियलाइजेशन का लाम पाने के लिए, मौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सुबस्यों से अनुरोध है कि वे अपनी धारिता को	7 Pather No. 71/192 Šq.No. 43, Killa No. 1 to 25 Pather No. 72/192. Šq.No. 44, Killa		
रूप में शयर धारण करने वाल सदस्या से अनुराध हो के व अपना धारितों की शीघ्रातिशीघ्र डीमैटीरियलाइज्ड पद्धति में कन्वर्ट कर लें। अधिक जानकारी के लिए	(1) (2) (3) (4) (9) (6) Agriculture Land of Khata No. 86/54, Pather No. 70/192, Sq.No. 42, Killa No. 4 to 7 Pather No. 72/192 Sq.No. 43, Killa No. 1 (3) (4) (9) (6) To to 25 Pather No. 72/192, Sq.No. 43, Killa No. 1 (4) (6) (7) (7) No. 1 to 20, 23, 24, 25 Pather No. 73/192, Sq.No. 48, Killa No. 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 Pather No. 70/194, 5q.No. 57, Killa No. 3, 8, 13, 18, 23, Pather No. 70/195, Sq.No. 58, Killa No. 3, 8, 13, 18, 23, Stuated at 27 MJD, Patwar Mandel Chapawall, Tehlil Sadukahar District Srieanzenare 5		माग नाटिस दिनाकित कर्जदार(ओ) और सह–कर्जदार (ओ) के नाम
	21, 22 Pather No. 70/194, Sq.No. 57, Killa		कल बकाया राशि
पृथया www.jonigroup.com पर जाए। कृते जय भारत मारूति लिभिटेड हस्ता∕-	NO. 3, 8, 13, 18, 23, Pather No. 70/195, Sq.No. 59 Killa No. 3, 8, 13, 18, 23 situated		
हरता/- रवि अरोड़ा			अचल संपत्ति का विवरण
कंपनी सचिव और	(Rajasthan) Total 18.4650 hect, out of which defendant's share is 9.2340 hect.		L
स्थानः गुरूग्राम अनुपालना अधिकारी	्रमण वर्ष	ली अधिकारी-प्रथम	दिनांक: 23.05.2024
तिथि : 22 मई, 2024 M NO. A37075	मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 20.04.2024 को जारी। ऋण वसू	ी अधिकरण, जयपुर	स्थान : उत्तर प्रदेश

30.09.2023 1. मो. आसिफ खान, 2. मोहम्मद अख्तर और 3. शमीम रु. 14.62.221.95/- (रुपये चौदह लाख बासठ हजार दो सौ इक्कीस और पिचानवे पैसा माट दिनांक 30.09.2023 को प्लॉट नं. 166 का भाग, खसरा नं. 3135, 3147, 3149/3, 3105, 3115/2, 3116 और 3117, ताऱ्या गार्डन, वर्तमानू में शालीमार गार्डन कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250003 (''प्रत्याभूत परिसंपत्तियाँ'') 14-11-2023 1. मो. शादाब और 2. नाज़रीन रु. 12,47,172/- (रुपये सन्नह लाख सत्तर हजार तीन सौ निन्यानवे मात्र) दिनांक 14.11.2023 को मकान प्लॉट नं. 39 के भाग पर, खसरा नं. 380, अफान गार्डन, मेरठ, उत्तर प्रदेश–20001 ("प्रत्याभूत परिसंपत्तियाँ") 11.09.2023 1. रामदास और 2. नित्रा रार्न रु. 13,77,294.55/- (रुपये तेरह लाख सतहत्तर हजार दो सौ चौरानवे और पचपन पैसा माह दिनांक 11.09.2023 को मकान ग्लॉट नं. 249 पर, खसरा नं. 332, भगवती कुंज कॉलोनी, गाँव नंगला शेरखान उर्फ जयपुर, परग और तहसील, मेरठ, उत्तर प्रदेश–250002 ("प्रत्याभूत परिसंपत्तियाँ") 18-01-2024 1. महेश कुमार और 2. हेमलता शर्मा रु. 24,38,346/- (रुपये चौबीस लाख अड़तीस हजार तीन सौ छियालीस मात्र) दिन 18.01.2024 को गाँव छपरौला, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश रिथत फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट नं. 43, एरिया माप 82 वर्ग गज अर्थात 68.56 वर्ग मीटर, खसरा नं. 909 में से (यहाँ आगे ''उक्त संपत्ति" कहा गया है)। उक्त संपत्ति की सीमाएँ:– पूर्वः प्लॉट नं. 42, पश्चिमः प्लॉट नं. 44, उत्तरः रास्त 18 फुट चौड़ा, दक्षिणः प्लॉट नं. 39 (**''प्रत्याभूत परिसंपत्तियाँ'')** 23-12-2023 गौरव जिंदल, 2. अंगूरी जिंदल और 3. संजीव जिंदल रु. 11,67,686.77/- (रुपये ग्यारह लाख सङ्सठ हजार छह सौ छियासी और सतहत्तर पै मात्र) दिनांक 23-12-2023 को मोहल्ला नंद नगरी, गाँव सीकरी खुर्द परगना जलाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद f संपत्ति अर्थात आवासीय मकान, एरिया 70 वर्ग गज अर्थात 58.52 वर्ग मीटर जिसका खसरा नं, 526 (यहाँ आगे ''उक्त संपत्ति'' कहा गया है)। उक्त संपत्ति की सीमाएँ:-- पूर्वः सुभाष त्यागी का मकान, पश्चिमः पप्पू का प्लॉट, उत्तरः सुरेश का मकान, दक्षिणः राख्ता 12 फुट चौड़ा ("प्रत्याभूत परिसंपत्तियाँ") 23-12-2023 1. वाजिद दलेल और 2. शबाना वाजिद रु. 30,28,438.25/- (रुप्ये तीस लाख अठाईस हजार चार सौ अड़तीस और पच्चीस पैसा मात्र दिनांक 23-12-2023 को मकान नं. 608, खसरा नं. 1431 मोहल्ला आदर्श नगर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर, गाजियाबाव उत्तर प्रदेश—201204। उक्त संपत्ति की सीमाएँ:— पूर्वः रास्ता 16 फूट चौडा साइड 17 फूट 6 इंच पश्चिमः त्यागी मलिक का मकान भुजा 17 फुट 6 इंच, उत्तरः कुसुम त्यागी का मकान भुजा 51 फुट दक्षिणः अकरम का मकान भुजा 52 फुट। ("प्रत्याभूत परिसंपत्तियाँ") 22-09-2023 मो. इस्लाम. 2. जैद एंटरप्राईजेज और 3. ममताज बेगम रु. 44,53,869.39/- (रुपये चौबालीस लाख तिरपन हजार आठ सौ उनहत्तर और उनताल पैसा मात्र) दिनांक 22-09-2023 को एच. नं. 18 खसरा नं. 30 ऑफीसर्स ब्लॉक पंचवटी कॉलोनी, गाजियाबाद, उ.प्र.–201301, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश-201009 ("प्रत्याभूत परिसंपत्तियाँ") 14-11-2023 1. हरी सिंह राठौड और 2. सरोज राठौड रु. 11,03,430/- (रुपये ग्यारह लाख तीन हजार चार सौ तीस मात्र) दिनांक 14-11-2023 को संपत्ति स्थित ईंडब्ल्यूएस मकान नं. ईं−4 ⁄ 439, भूतल, शहीद नगर, आगरा, उत्तर प्रदेश−28200 (''प्रत्याभूत परिसंपत्तियाँ'') इल्ता /_ प्राधिकृत अधिकारी डीसीबी बैंक लिमिटेड

ACCESSION CONTROL OF C	Koregaon Park A	Corporate Office : 201 and 202, 2nd Floc Annex, Mundhwa, Pune - 411036, Maha		MOVABLE PROPERTY)		1689, 141-2651722, Øbankofbaroda.com
THEORY ELIVITIES JUNCET THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENforcement of Security Interest Act 1	of the above Corporate/Register office under t Interest Act, 2002 (hereinafter referred as the "s	said Act") and in exercise of the powers of	f Financial Assets and conferred under Sect	Enforcement of Security ion 13 (2) of the said Act	POSSESSION NOTICE (FOR IMMOVABLE PROPER (As per Appendix IV read with rule 8 (1) of the security interest (Enfore Whereas, The undersigned being the authorized officer of the BANK OF Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of 2002 (44 2000) and the average of payment periodized under Section 3400	the security Interest Act,
within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers having failed to repay the amount, undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on me under Section 13(4) of the said Act read with Rule 9 of the said nues on the dates mentioned as helow.	read with Rule 3 of the Security Interest (Enfo Borrowers to repay the amount mentioned in the The borrowers having failed to repay the amoun has taken possession of the property described	he notice within 60 days from the date of it, notice is hereby given to the borrowers d herein below in exercise of powers con	of receipt of the said n s and the public in gen nferred on him/her ur	otice. eral that the undersigned nder Section 13 (4) of the	2002 (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(2) the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notic calling upon the Borrower: -Shri Babu Lai Mahawar, Address: - Plot No. 3 Vistar, Vijaypura, Near Sogani Hospital, Agra Road, Jaipur, to repay the the notice being Rs. 2,04,363/- (Rupees Two Lakhs Four Thousand Three	ce dated 13.02.2024 39, Vardhman Nagar amount mentioned in Hundred Sixty Three
The borrower and Guarantor in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the properties and any dealings with the property will be subject to the charge of the AAVAS FINANCIERS LIMITED (Formerly known as "AU HOUSING FINANCE LIMITED") for an amount mentioned as below and further interest thereon. Name of the Borrower Date & Amount Description of Property Date & Type	said Act read with Rule 8 of the said rules of the The borrowers in particular and the public in g property will be subject to the charge of Poon interest thereon.	general are hereby cautioned not to deal	al with the property a	nd any dealings with the	Only) as on 13.02.2024 (Inclusive interest up to 13.02.2024) together thereon at contractual rate + Costs + Charges and Expenses until payment from-the date of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to public in general that the undersigned has taken possession of the prope	t in full within 60 days the borrower and the
Name of the borrower of Demand Notice Description of roperty of Possession YUVARAJ ANANDHAN, 16 Mar 24 House bearing NO - 950 Measuring 33 Sq Symbolic YIVARAJ ANANDHAN, 16 Mar 24 Yards(11 ftX 27 Ft) having covered area 300 Possession YUKARJ ANANDHAN, 16 Mar 24 Sq.Ft comprising in KHASRA NO- Taken on 15 Mar 24 16 Mar 24 Sq.Ft comprising in KHASRA NO- Taken on 158,6304/159,6307/160,6510/161 stuated in 22 May 24	The borrower's attention is invited to provision secured assets. Details of Property taken in pos- Name of Descript	tion of Possession	Date of	Amount in	below in exercise of powers conferred on him/ her under sub Section (4) of Act read with rule 8 of the Security Interest (Enforcement) rules, 2002 on th the Year 2024. The Borrower/Mortgagors/Guarantor's in particular and th hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the prop	f the section 13 of the he 21th day of May of he public in general is perty will be subject to
the revenue estate of village Gurgaon colony known as MAHALXXMI GARDEN/RAJENDRA PARK, Gali No 2, within M.C Area Gurgaon, Tehsil and Distt Gurgaon Haryana Admeasuring 33	Borrowers Prope DEV SINGH ALL THAT PIECE AND P. RADHA DEVI PROPERTY OF 605 SQ. YARI	ARCEL OF RESIDENTIAL 21.05.2024 D AT KHEWAT NO. 21/23,	Demand Notice	Demand Notice (Rs.) Loan No. HL/0179/H/15/000171	the charge of the Bank of Baroda, Branch Jawahar Nagar, Jaipur fo 2,04,363/- (Ruppes Two Lakh Four Thousand Three Hundred Skty 13.02.2024 (Inclusive interest up to 13.02.2024) and further interest there rate plus costs, charges and expenses till date of payment. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of sec	Three Only) as on eon at the contractual
Place : Jaipur Date: 23-05-2024 Authorised Officer Aavas Financiers Limited	ARJUN FIBER WORK AND TRADING CO 3/320 SHARE OF 3 MARIE	LLABHGARH, FARIDABAD, IAL 0 MARIE SHARE OF AND LAND MEASURING		Rs. 25,80,320/- (Rupees Twenty Five Lacs Eighty Thousand Three Hundred Twenty entry payable as an	respect time available, to redeem the secured assets. DISCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY Plot No. 39, Vardhman Nagar Vistar, Vijaypura, Near Sogani Hospital, Agn name of Shri Babu Lai S/o Shri Nand Kishoro Mahawar. Admeasuring-164.9	ra Road, Jaipur in the 93 Sg. Yards Bounded
SHRIRAM (Earlier known as Shriram City Union Finance Limited).	SAVITA 4 KANAL 8 MARLE SHARE MARIE, SITUATED AT WAKY BALLABHGARH DISTT. FARI YDS) AND BOUNDED AS U OF AMARPAL, NORTH:PAF	A MOUZA SOTAI, TEHSIL IDABAD-121004, (605 SQ. UNDER: EAST: PROPERTY	i	only) payable as on 08.08.2023 along with nterest @ 16.80% p.a till the realization	by: On the North by: Plot No. 34 On the South by: Road 30 Feet On the East West by: Plot No. 38 Date:-21.05.2024, Place:-Jaipur Authorised Of	by Other Land On the flicer Bank of Baroda
Reg. Off.: 14A, Sri Towers, South Phase, Industrial Estate, Guindy, Chennai-600 032; Branch Off: UGF-12 to 21, Upper Ground Floor, Amba Deep Building, 14, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi -110001 Website: www.shriramfinance.in	PROPERTY OF MAHIPAL SING	GH, SOUTH: 22 FT ROAD.	ļ	Authorised Officer	(A Government Company) (A Government Company) Regd. Office: KOTHAGUDEM– 507101,	-
Note: "It is informed that "SHRIRAM CITY UNION FINANCE LIMITED" has been amaigamated with "SHRIRAM TRANSPORT FINANCE LIMITED" as per order of NCLT, Chennal. Subsequently the name of "SHRIRAM TRANSPORT	Dated : 23.05.2024			(Signature)	E-PROCUREMENT TENDER Tenders have been published for the following Services / Material Procurement th platform. For details, please visit https://tender.telangana.gov.in - or -https://www NIT/Enguiry No Description / Subject / Estimated ContractValue -Last date	through e-procurement ww.scclmines.com
FINANCE LIMITED" was changed as "SHRIRAM FINANCE LIMITED" with effect from 30.11.2022 vide Certificate of Incorporation pursuant to change of name dated 30-11-2022)."		ASY FINCORP LTD)		CRP/CVL/RG-III/TN-06/2024-25, dt.20.05.2024 -Construction of foundation beds in underground of Adriyala Longwall Project, Adriyala Projects Area, Godavarik Telangana State -04.06.2024 - 04.30 P.M. CRP/CVL/RG-III/TN-07/2024-25, dt.20.05.2024 - Desitting of Nallah No 2 loose O	s for UG5 and gate belts khani, Peddapalli Dist.,
Whereas the borrowers/co-borrowers/guarantors/ mentioned hereunder had availed the financial assistance from Shriram Finance Ltd (SFL), we state that despite having availed the financial assistance, the borrowers/guarantors have committed various defaults in repayment of interest and principal amounts as per due dates. The account has been classified as Non Performing Asset in accordance with the directives/guidelines issued by Reserve Bank of India. consequent to the Authorized	Regd. Office : Duncan Tel: 033-6625-1000; Ema	CIN L65920WB1984PLC262226 House, 4th Floor, 31 Netaji Subhas Roac all: rpsg.secretarial@rpsg.in; website: the all Results for the Quarter and Year	www.easyfincorp.co	2024	II mine, RG-IIIArea, Telangana State. Rs. 62,68,336/28.05 2024 - 04.30 P M. CRP/CVL/KGM/TN-08/2024-25, dt.20.05 2024 - Laying of BT road from propose existing road near check post (NH-30) of Venkatesh Khani Coal Mine (VKCM), Kothagudem Dist, TG. Rs. 69,39,887/- 04.06.2024 - 04.30 P M	d coal yard at 850 RL to , KGM Area, Bhadradri
Officer of Shriram Finance Ltd (SFL) under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 & in exercise of powers conferred under Section 13(2) read with Rule 3 of Security Interest (Enforcement) Rules. 2002 issued Demand Notices on respective dates mentioned herein below under Section 13(2) of SARFAESI Act, 2002	Particulars	Qua 31.03.2024 31	arter ended	Year ended 31.03.2024 31.03.2023 Audited Audited	CRP/CVL/KGMATN-09/2024-25, Dt.20.05.2024 - Maintenance of JVR-OC CHP taking off from the proposed Sathupalli station on BDCR-Sathupalli Main line of SC period, Sathupalli Kothagudem Area, Khammam Dist, T.G. Rs. 1,76,47,070030 CRP/CVL/KGM/TN-10/2024-25, dt.20.05.2024 - Laying of BT road from R&B	C Division for two years 06.2024 - 04.30 P.M. Froad to JVR OC-II for
calling upon the following borrowers /guarantors /mortgagors to repay the amount mentioned in the notices together with further interest at the contractual rate on the amount mentioned in the notices and incidental expenses, cost, charges etc until the date of payment within 60 days from the date of receipt of notices.	 Total Income Profit / (Loss) before tax Net Profit/ (Loss) from ordinary activities 		2.43 2.24 (3.53) (15.59) (2.68) (12.45)	(18.80) (19.07) (15.41) (15.93)	transportation of coal from Kistaram OC to JVR CHP, Sathupalli, KGM Area, Khar 3,44,47,300/- 04.06.2024-04.30 P.M. CRP/CVL/BHP/TN-11/2024-25, Dt.20.05.2024 - Construction of compound wall cast posts and panels all round solar power plant (Stage-II) at BHP area, Jayash Telangana State - 04.06.2024-04.30 P.M.	I with pre-stressed pre
The notices issued to them on their last known addresses have returned un-served and as such they are hereby informed by way of public notice about the same.	 4 Total Comprehensive Income /(Loss) net of 5 Equity Share Capital 6 Reserves (excluding Revaluation Reserves) balance sheet of previous year) 	24.50	(2.68) 590.94 24.50 24.50		CRP/CVL/MMR/TN-12/2024-25, Dt.20.05.2024 - Maintenance of Filter beds nea mines including maintenance of water supply lines at Mandamarri area for the year (For 2 years period), Mancherial Dist, Telangana State. (Invited under earmarke belonging to SC community only are eligible). Rs. 71, 29.277/- 04.06.2024 - 04.30)	rs 2024-25 and 2025-26 ed works - Contractors P.M.
Name Of The Borrower(s)/ Outstanding Loan Property Address of	 7 Earnings per Share (for continuing and dis (of Rs. 10/- each) a) Basic : 	scontinued operations) (1.68)	(1.09) (5.08)		CRP/CVL/RG-I /TN-13/2024-25, dt.20.05.2024 - Laying of CC approach road to Pre- exit of Lomies at GDK CM (2, 2A & 5) at RG-I Area, GDK. Rs. 69,72,150/04.06.2024 - BHP/CVL/ET-04/2184/2024-25, Dt.20-05-2024 - Construction of 33 KV / 3 3 KV outdoon near to guary at KTK OC-III project, Bhupapalli area. Rs. 46,68,70/ 07.06.2024 - 04.3 B O, Nie - 1098 DPI//L Net Ref. (2014) 55 Dett. 306,8004 - DEtacodo L. DET	04.30 P.M. GM (Civil) or and indoor sub-stations 30 P.M. GM (BHPL)
Co-Borrower(S) Amount Amount Secured Assets 1) Mr. Sanjay Choudhary(Borrower) Rs. Rs. Left side half portion of the property bearing MPL No. House No. 2632, Shop No. 1, Shadikhampur, 21,77,435/- (Rupees 23,00,000/ property bearing MPL No.	b) Diluted : Note:	(1.68) (not :	(1.09) (5.08) annualised)	(6.29) (6.50)	R.O. No. : 1083-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2024-25 Date: 22-05-2024 PR/2024-24	25/ADVT/CVL/BHPL/04
Delhi – 110008. Twenty One Lakhs (Rupees 2531/2, area measuring 54 Also at: 14/10, 2nd Floor, East Patel Nagar, Seventy Seven Twenty Sq. Yards, out of total area 108 Delhi -110008. Thousand Four Three Sq. Yards, out of total area 108	 The above results prepared and presented Disclosure Requirements) Regulations, 2015 were approved by the Board of Directors in The above is an extract of detailed format of g 	5 have been reviewed by the Audit Commit its meeting held on that date.	ittee in its meeting held	d on 22nd May, 2024 and	JAY BHARAT MARUTI LIMITED CIN: L29130DL1987PLC027342 Regd. Office: 601, Hernkunt Chambers,	۲. ЛеЖ
2) Mrs. Saroj Choudnary Co-Borrower /Guarantor) 14/10, 2nd Floor, East Patel Nagar, Delhi - 09.5.2024 Unity as on 09.5.2024	 33 of SEBI (Listing obligations and Dislcosur are available at the BSE website i.e www.bs 3 The figure for the corresponding previous p to the figures presented in the current perior 	seindia.com and website of the Company periods have been regrouped/ reclassified	y i.e. www.easyfincor	p.com	Ph.: 011-26427104; Fax: 011- 26427100 Our mileston E-mail: jbml.investor@jbmgroup.com;	Mg D nes are touchstones
3) Mrs. Pankaj Co- Borrower/ Guarantor Loan account no. Bonded as Under: 14/10, 2nd Floor, East Patel Nagar, Delhi - RSSDLLP22030500 East: Other Property	Place : Kolkata	u.		asy Fincorp Limited S d/- Rajendra Dey Director	Website: www.jbmgroup.com NOTICE OF POSTAL BALLOT TO MEMBE Members are hereby informed that pursuant to provisions of Secti	
NPA DATE- 04-05-2024 Vest: Other Property North: Gali South: Gali	Date : 22nd May, 2024		D	IN: 07011234	and all other applicable provisions, if any, of the Companies Act, read with Rule 20 & 22 of the Companies (Management and Admi 2014, as amended ("the Rules "), General Circular No. 09/2 September 2023 and other relevant Circulars issued by the Mini	ninistration) Rules, 2023 dated 25th
1)Mr. Om Prakash Awana(Borrower) Rs. 2, 55, 80,216/- Rs. Residential Plot No.13, area C-13, Sector – 51, Nolda Gautam Budh Rupees Two Crore 2,50,00,000 measuring 325 Sq. Meter, Nagar, Utter Pradesh – 201301 Fifty Five Lakhs Eighty /- (Rupees situated at in Block –E, Sector-	POSSESSION NOTICE		DCB	BANK	Affairs ('MCA') from time to time ('MCA Circulars'), Regulation 44 and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosus Regulations, 2015 ("Listing Regulations") including any statutor or re-enactment(s) thereof for the time being in force, Secretarial	4 of the Securities ire Requirements) ry modification(s)
2)Mrs. Savita . Co-Borrower/Guarantor) Thousand Two Two Crore 51, Noida, Gautam Budh C-13, Sector – 51, Noida Gautam Budh Hundred Sixteen Only) Fifty Lakhs Nagar, U.P. Nagar, Utter Pradesh – 201301 respect as on Opty Opty	The undersigned being the authorized officer of and Enforcement of Security Interest (54 of 200	02) and in exercise of powers conferred	ation and Reconstructure d under section 13(1	ction of Financial Assets 2) read with rule 3 of the	General Meeting ("SS-2") issued by the Institute of Company Se ("ICSI"), and other applicable laws and regulations, if any, approva of Jay Bharat Maruti Limited ('the Company') is being sought by	ecretaries of India ral of the Members y means of postal
3)Mrs. Rajeshwari Co- Borrower/Guarantor 05.5.2024 and Rs. 50, S-221/6, No. 23/20, Vishnu Garden, Gali No. - 7, C-13, Sector - 51, Noida Gautam Budh - 7, C-13, Sector - 51, Noida Gautam Budh - 7, C-13, Sector - 51, Noida Gautam Budh - 7, C-13, Sector - 51, Noida Gautam Budh	Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 (Borrower's and Co-Borrower's) to repay the a thereon from within 60 days from the date of rec The borrower and Co-Borrower having failed to	amount mentioned in the notice as detail ceipt of the said notice. to repay the amount, notice is hereby g	iled below in tabular f given to the borrowe	orm with fur ther interest er, Co-Borrower and the	Ballot through electronic means i.e. through remote e-voting system In terms of MCA Circulars and SEBI circulars, the Company Wednesday, May 22, 2024 completed the electronic dispatch of Notice along with Explanatory Statement thereto through KFin Tecl	ny has today i.e. If the Postal Ballot
Hundred Seventy Four lakhs only) Idea 2 10, Only) as on 09.05.2024	public in general that the undersigned has ta conferred on him under sub-section (4) of 20-May-2024, 20-May-2024, 20-May-2024, The borrower, Co-Borrower in particular and th	section 13 of Act read with rule 8 o 20-May-2024, 21-May-2024, 21-May-	of the Security Inter y-2024,21-May-202	est Rules 2002 on this 24 and 21-May-2024 .	to those Members whose email addresses are registered with depository participant(s) as on Friday, May 17, 2024 ("Cut Company has engaged KFin Technologies Limited (*KFintech') for providing remote e-voting facility.	t-off Date"). The
NPA DATE- 04-05-2024 Loan account no. Date Of Demand Notice: 09-05-2024 RSSDLLP2301060022 and Loan account no.	the immovable Property) and any dealings wi amount as mentioned here below. The Borrower's attention is invited to provision the secured assets.				A person whose names appears in the Register of Members/Benefi on the cut-off date i.e Friday, May 17, 2024 only shall be entitly resolutions proposed to be passed by Postal Ballot/e-voting. A per member as on the cut-off date should treat this notice as information	led to vote on the erson who is not a
RSSDLLP2301100001 1) M/S KASHIRA TEXTILES CO. 1,31,07,397/- Rs, Portion of Plot bearing No. 17,	Demand Notice Dated. 30.0 Name of Borrower(S) and Co-borrower(S) 1.M 1.M Total Outstanding Amount. Rs.	14,62,221.95/-(Rupees Fourteen Lakh S	Sixty Two Thousand T	wo Hundred Twenty One	Members who have not received the Notice of Postal Ballot may do from company's website at www.jbmgroup.com, KFintech e-v https://evoting.kfintech.com and on the websites of BSE L	ownload the same voting website at Limited (BSE) at
(Borrower) (Rupees One Crore 130,00000. (MPL No. WZ-J/220/17, Land Rep by its Partner Mr. Kayum Khan Thirty One Lakhs 00/- area measuring 51.43 SQ. Shop No. WZ-J-220/17, Ground Floor, Seven Thousand (Rupees Meters., Part of RECT No. 23, Vishnu Garden, North West Delhi – 110018. Three Hundred One Crore Killa No. 21, situated in the	Description of the Immovable Property TAN	d Paise Ninety Five Only) as on 30.09.2023 RT OF PLOT NO 166 KHASRA NO 3135, 3 NYA GARDEN PRESENT SALIMAR GAR D003 (THE SECURED ASSETS)	3147, 3149/3, 3105, 3		www.bseindia.com and National Stock Exchange of India L www.nseindia.com or can write to the Company at jbml.investor@j The Board of Directors has appointed Ms. Sunita Mathur, (FCS- Secretary in practice, as the Scrutinizer, for conducting the postal b)bmgroup.com 5-1743) Company
1.Mr. Kayum KhanCo-Borrower/ Ninety Seven Only) Thirty Lakhs Revenue Estate of Village Guarantor) respect to loan Only) Thirty Lakhs Knyala, Delhi, State Delhi abadi S-221/6, No. 23/20, Vishnu Garden, Gall No. account no. Only) Known as Vishnu Garden, New	Name of Borrower(S) and Co-borrower(S) 1. M Total Outstanding Amount. Rs.	12,47,172/-(Rupees Seventeen Lakh Se	eventy Thousand Thr	ee Hundred Ninety Nine	process in fair and transparent manner. All members are, therefore, Informed that: a) Date of completion of dispatch/sending of Notice of Postal Ball	
- 7, Delhi, Near Axis Bank ATM, Delhi - RSSDLLP23010600 Delhi - 110018 with the free 110018 22 as on 16.04.2024 hold land rights under the said 2.Mrs. Rashmi KhanCo- Borrower/ Durate and as under: under:	Description of the Immovable Property HOU PR/ Demand Notice Dated. 11.0	y) as on 14-11-2023 USE ON PART OF PLOT NO. 39 KHASRA ADESH- 20001 (THE SECURED ASSETS) 09.2023		ARDEN MEERUT UTTAR	May 22, 2024 b) The e-voting period shall commence on Friday, May 24, 202 (IST) and end on Saturday, June 22, 2024 at 05:00 PM. (period, Members of the Company, holding shares either	(IST) . During this r in physical or
S-221/6, No. 23/20, Vishnu Garden, Gali No. – 7, Delhi, Near Axis Bank ATM, Delhi – West: Portion of Property	Name of Borrower(S) and Co-borrower(S) 1. R Total Outstanding Amount. Rs. Fou		023	,	 dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. Friday, May 17 their vote electronically. The remote e-voting module shall be thereafter. c) The voting rights of the Members through Remote E-Voting s 	e disabled by Kfin shall be reckoned
110018 North: Other's Property NPA DATE- 04-05-2024 North: Road 30 Ft Date Of Demand Notice: 09-05-2024 Image: Content of Demand Notice: 09-05-2024	SHE (TH Demand Notice Dated. 18-	ERKHAN URF JAIPUR, PARGANA & TEHSII IE SECURED ASSETS) -01-2024	IL, MEERUT UTTAR PF		based on the proportion of the Equity Shares held by them in the Share Capital of the Company as on the date of the business how 17, 2024 (cut-off date) d) If e-mail address is not registered with the Company/Registrar ar	the Paid-up Equity urs on Friday, May
1)M/S JYOTIRMAYI APPARELS Rs. 16, 34,423/- Rs. Property House No. 1-J/19-A, (Borrower) (Rupees Sixteen Lakhs 40,00,000/- portion measuring 110 Sq. Thirty Four Thousand Thirty Four Thousand (Rupees Yards, out of Total 231 Sq	Only	AAHESH KUMAR and 2. HEMLTA SHARMA 24,38,346/-(Rupees Twenty Four Lakh Ti y) as on 18th January 2024 EEHOLD RESIDENTIAL PLOT NO. 43, ARE	Fhirty Eight Thousand	,	Agent of the Company/Depositories, please follow the followi registration of email address and for receipt of login ID and passw i. Members holding shares in physical mode are requested to regi	ing procedure for word for e-voting: ister / update their
1-A, 120, Market No. 1, NH- 1, NIT, Four Hundred Twenty Forty Lakhs Yards of Khasra No. 1, J/19-A, Faridabad, Haryana – 121001 Three Only) as on Only) NIT Faridabad, Haryana. Also at: 1-J, 19-A, NIT, Faridabad, Haryana 09.05.2024, Loan Only) North: 18 Feet Road and Park - 121001 account no. South Part of Diate South Part of Diate	ME & T AS	TERS, OUT OF KHASRA NO. 909, SITUATE TERS, OUT OF KHASRA NO. 909, SITUATE "EHSIL DADRI, DISTRICT GAUTAM BUDH "SAID PROPERTY"). FOUR BOUNDARIES IST: PLOT NO. 44, NORTH: RASTA 18 FEE	TED IN THE VILLAGE C H NAGAR, U.P., (HERE S OF THE SAID PROPE	HHAPRAULA, PARGANA INAFTER REFERRED TO RTY: EAST: PLOT NO. 42,	e-mail address by writing to the Registrar & Share Transfer A Share Transfer Agent Ltd at helpdeskdelhi@mcsregistrars.com ii. Members holding shares in dematerialized mode are reques update their email addresses with their respective Depository Par	sted to register /
Co- RSSDLTF180 Rs. South: Part of Plot 2) Late Anshul Bhatiya Co- RSSDLTF180 Rs. South: Part of Plot Borrower/Guarantor) 9180001 AND 2150000/- East: House No 1-J/18-A, Through Legal Heirs Rs. 2718287/- (Rupees West: House No. 1-J/20A	Ass Demand Notice Dated. 23- Name of Borrower(S) and Co-borrower(S) 1. G	sets) 12-2023 GAURAV JINDAL, 2. ANGURI JINDAL and 3	3. SANJIV JINDAL		After successful registration of the e-mail address, a copy of with the e-voting user ID and password will be sent to the address, upon request received from the member. In case Members may write to ibml.investor@ibmgroup.com	this Notice along registered e-mail
(a)Mr. Dalip Kumar Bhatiya (Rupees Twenty Seven Twenty One (b) Mrs. Jyoti Bhatiya Lakhs Eighteen Lakhs Only) All Resident of 1-J. 19-A. NIT. Faridabad. Thousand Two AND	Pais Description of the Immovable Property ME	11,67,686.77/-(Rupees Eleven Lakh Sixt se Seventy Seven Only) as on 23-12-2023 OPERTY I.E. RESIDENTIAL HOUSE HAVI TERS CONSISTING OF KHASRA NO. 52	3 [°] /ING AN AREA 70 SC 526 SITUATED AT MO	D. YARDS I.E 58.52 SQ. DHALLA NAND NANGRI	e) In case of any queries in respect of e-voting, you may refer Asked Questions (FAQs) for members and e-voting User Man available at the download section of https://evoting.kfintech.cc	nual for members com or contact at
Haryana – 121001 Hundred Eighty Seven Rs. 1.Mr. Dalip Kumar Bhatia Only) as on 1000000/- Co- Borrower/Guarantor 09.05.2024 (Rupees Ten	VILI HEF WE3	LAGE SEEKRI KHURD PARGANA JALABAI RINAFTER REFERRED TO AS THE SAID PR IST: PLOT OF PAPPU, NORTH: HOUSE IE SECURED ASSETS)	AD TEHSIL MODINAGA ROPERTY: EAST: HOUS	R DISTT GHAZIABAD. SE OF SHUBHASH TYAGI,	e-voting@kfintech.com or at 1800 3094001 (toll free) clarifications. f) For any grievances In respect of Postal Ballot including e-votin contact to:	-
1-3, 15-A, N1, Faruabau, Haryana – RSSDLTF171 Lakhs Only) 121001 0010001 AND 4) Mrs. Jyoti Bhatia 0010001 AND Co. Borrower/Guarantor Rs. 637453/-	Demand Notice Dated. 23- Name of Borrower(S) and Co-borrower(S) 1. W 1. W Total Outstanding Amount. Rs.	12-2023 VAZID DALEL and 2. SHABANA WAZID 30,28,438.25/- (Rupees Thirty Lakh Twe		our Hundred Thirty Eight	Mr. Ravi Arora Company Secretary Jay Bharat Maruti Limited	
Lo- Borrower/Guarantor (Rupees Six Lakhs 1-J, 19-A, NIT, Faridabad, Haryana – Thirty Seven 121001 Thousand Four	And Description of the Immovable Property HOU TEH SID	1 Paise Twenty Five Only) as on 23-12-202: USE NO. 608 KHASRA NO. 1431 MOHAL HSIL MODINAGAR GHAZIABAD UTTAR PF IE 17 FEET 6 INCHES. WEST:- MAKAN TY,	23 ILLA ADARSH NAGAF RADESH-201204. EA: YAGI MALIK ARM 17 F	PARGANA JALALABAD ST:- PATH 16 FEET WIDE EET 6 INCHES, NORTH:-	Phone:0124-4674500 email Id: jbml.investor@jbmgroup.com The results of postal ballot will be declared within two working da conclusion of the remote e-voting. The declared Results along with Report will be available on the Company's website at www.jbmg	lays of the date of th the Scrutinizer's
NPA DATE- 04-05-2024 Hundred Fifty Three Date Of Demand Notice: 09-05-2024 Only) Loan account no. RSSDLTF2107040003	(TH Demand Notice Dated. 22-	USE KUSUSM TYAGI ARM 51 FEET, IE SECURED ASSETS) 09-2023		kram arm 52 feet.,	KFintech website at https:/evoting.kfintech.com. Such Results will a by the Company to the NSE and the BSE where the Company's share SEBI has mandated the Company/RTA to obtain copies of PAN C	also be forwarded es are listed. Card, KYC Details,
as on 09.05.2024 In the circumstances as aforesaid, the notice is hereby given to the above borrowers, co-borrowers and/ or their guarantors	And Description of the Immovable Property H N	44,53,869.39/-(Rupees Forty Four Lakh f d Paisa Thirty Nine Only) as on 22-09-2023 IO 18 KH NO 30 OFFICER'S BLOCK PANCF	Fifty Three Thousand 3 HWATI COLONY GHZ L	. ,	Bank Account Details, Nomination Form, etc. from all members inphysical form. Therefore, members holding shares in physical me to provide PAN, KYC and other details at the earliest, along with documents/details. Further, to obtain the inherent advantages of the	ode are requested ith the prescribed dematerialization,
(where ever applicable) to pay the outstanding dues as mentioned above along with future interest and applicable charges within 60 days from the date of the publication of this notice failing which further steps will be taken after the expiry of 60 days of the date of this notice against the secured assets including taking possession of the secured assets of the borrowers and the mortgagors under Section 13(4) of Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and	Demand Notice Dated. 14- Name of Borrower(S) and Co-borrower(S) 1. H		OR	adrad Thirts Cart A	members holding shares in physical form are requested to com into dematerialized mode at the earliest. For more detai www.jbmgroup.com.	
under Section 13(4) of Securitization and Re-construction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and the applicable rules there under. Please note that under Section 13 (13) of the said Act, no Borrower shall, transfer by way of sale, lease or otherwise any of his secured assets referred to in the notice, without prior written consent of the secured creditor.	14- Description of the Immovable Property PRO	11,03,430/-(Rupees Eleven Lakh Three -11-2023 OPERTY AT EWS HOUSE NO.E-4/439, ON TAR PRADESH-282001 (THE SECURED A	N GROUND FLOOR, S	HAHEED NAGAR, AGRA	For Jay Bharat N	Sd/- Ravi Arora
Place: DELHI/NOIDA/FARIDABABD (NCR) Sd/- Authorised Officer Date: 23-05-2024 Shriram Finance Ltd	Date: 23.05.2024 Place: U.P.			Sd/-, Authorized Officer DCB Bank Limited	Place: Gurugram Comp	ny Secretary & pliance Officer M NO. A37075

Imbers who have not received the Notice of Postal Ballot may download the same m company's website at www.jbmgroup.com, Kfintech e-voting website at ps://evoting.kfintech.com and on the websites of BSE Limited (BSE) at ww.bseindia.com and National Stock Exchange of India Limited (NSE) at ww.nseindia.com or can write to the Company at jbml.investor@jbmgroup.com e Board of Directors has appointed Ms. Sunita Mathur, (FCS-1743) Company cretary in practice, as the Scrutinizer, for conducting the postal ballot and e-voting pccess in fair and transparent manner. members are, therefore, Informed that:
Date of completion of dispatch/sending of Notice of Postal Ballot is Wednesday,
May 22, 2024 The e-voting period shall commence on Friday, May 24, 2024 at 09:00 A.M. (IST) and end on Saturday, June 22, 2024 at 05:00 PM. (IST). During this period, Members of the Company, holding shares either in physical or dematerialized form, as on the cut-off date, i.e. Friday, May 17, 2024 may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by Kfin thereafter.
The voting rights of the Members through Remote E-Voting shall be reckoned based on the proportion of the Equity Shares held by them in the Paid-up Equity Share Capital of the Company as on the date of the business hours on Friday, May 17, 2024 (cut-off date)
If e-mail address is not registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent of the Company/Depositories, please follow the following procedure for registration of email address and for receipt of login ID and password for e-voting: Members holding shares in physical mode are requested to register / update their e-mail address by writing to the Registrar & Share Transfer Agent (RTA), MCS Share Transfer Agent Ltd at helpdeskdelhi@mcsregistrars.com Members holding shares in dematerialized mode are requested to register / update their email addresses with their respective Depository Participant. After successful registration of the e-mail address, a copy of this Notice along with the e-voting user ID and password will be sent to the registered e-mail address, upon request received from the member. In case of any queries, Members may write to jomi.Investor@jbmgroup.com In case of any queries in respect of e-voting, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting User Manual for members available at the download section of https://evoting.kfintech.com or contact at e-voting@kfintech.com or at 1800 3094001 (toll free) for any further clarifications. For any grievances In respect of Postal Ballot including e-voting, Members may
on any girevalues in respect or rostal ballot including e-voling, we noes may contact to: Mr. Ravi Arora
Company Secretary
Jay Bharat Maruti Limited Phone:0124-4674500 email Id: jbml.investor@jbmgroup.com
e results of postal ballot will be declared within two working days of the date of neclusion of the remote e-voting. The declared Results along with the Scrutinizer's port will be available on the Company's website at www.jbmgroup.com and on intech website at https:/evoting.kfintech.com. Such Results will also be forwarded the Company to the NSE and the BSE where the Company's shares are listed. BI has mandated the Company/RTA to obtain copies of PAN Card, KYC Details, nk Account Details, Nomination Form, etc. from all members holding shares hysical form. Therefore, members holding shares in physical mode are requested provide PAN, KYC and other details at the earliest, along with the prescribed cuments/details. Further, to obtain the inherent advantages of dematerialization, inder an earliest in physical form are requested to convert their holding o dematerialized mode at the earliest. For more details, please visit w.jbmgroup.com.
For Jay Bharat Maruti Limited Sd/-
Ravi Arora Company Secretary &
ace: Gurugram Compliance Officer

 $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$

 $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$

 $\bullet \bullet \bullet \bullet \bullet \bullet$

